



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 1980/ज्येष्ठ 15, 1902

No 231]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1980/JYAISTHA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 जून, 1980

का० धा० 386 (ख).—केन्द्रीय सरकार, आन्तरराष्ट्रियक निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 9 की उपधारा (1), पूर्व-विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 12 और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 38 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश संख्या का० धा० 479 (ई) तारीख 7 जुलाई, 1972 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के प्रशासक से परामर्श करने के पश्चात्, पंजाब राज्य के लिए पूर्व-विन्यास कोषपाल के, जो पूर्व-विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के अधीन गठित एक निगम है और जो पंजाब, हरियाणा राज्यों, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 3 के साथ पठित, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में कार्य कर रहा है, पुनर्गठित से संबंधित पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई स्कीम का, कनिष्ठ उपान्तरणों सहित, अनुमोदन करती है तथा इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का नाम पंजाब पूर्व-विन्यास कोषपाल (पुनर्संगठन और पुनर्गठन) आदेश, 1980 है।

(2) यह जुलाई, 1980 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो —

(क) “अधिनियम” से, पूर्व-विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) अभिप्रेत है ;

(ख) “नियत दिन” से, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख अभिप्रेत है ;

(ग) “विद्यमान निगम” से, इस अधिनियम के अधीन पंजाब के लिए गठित और नियत दिन से ठीक पूर्व पंजाब और हरियाणा राज्यों, अन्तर्गत राज्यक्षेत्रों और संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ में कृत्यशील पूर्व-विन्यास कोषपाल अभिप्रेत है ;

(घ) “हरियाणा निगम” से, हरियाणा राज्य की बाबत पैरा 3 के अधीन गठित निगम अभिप्रेत है ;

(ङ) “हिमाचल प्रदेश निगम” से, इस अधिनियम के अधीन नियत दिन से ठीक पूर्व, हिमाचल प्रदेश राज्य को अन्तर्गत राज्यक्षेत्र से भिन्न हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों की बाबत, पूर्व-विन्यास कोषपाल के रूप में कृत्यशील निगम अभिप्रेत है ;

(च) “पंजाब निगम” से, पैरा 3 द्वारा क्यापुनर्गठित और पुनर्गठित विद्यमान निगम अभिप्रेत है ;

(छ) “अनुसूची” से इस आदेश में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) “विद्यमान निगम” के संबंध में, “उत्तरवर्ती निगम” से, यथास्थिति, हरियाणा निगम या हिमाचल प्रदेश निगम अभिप्रेत है ;

(अ) "अन्तर्गत राज्यक्षेत्र" में, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 3 के साथ पठित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य का भागस्वरूप राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ब) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियों, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस आदेश में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका विधा गया है।

3 विद्यमान निगम का पुनर्गठन और हरियाणा राज्य की बाबत नए निगम का गठन तथा हिमाचल प्रदेश निगम की अधिकारिता का विस्तार—

नियत दिन से ही विद्यमान निगम, हरियाणा राज्य में सभाविष्ट राज्यक्षेत्रों में, अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में और संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में, क्रियशील नहीं रह जाएगा और उसी दिन से,—

(क) विद्यमान निगम, पंजाब राज्य की बाबत "कोषपाल, पंजाब पूर्त-विन्यास" के नाम से क्रियशील होगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य सरकार, हरियाणा राज्य की बाबत एक नया निगम "कोषपाल, हरियाणा पूर्त-विन्यास" के नाम से गठित किया जाएगा ;

(ग) हिमाचल प्रदेश निगम, अन्तर्गत राज्यक्षेत्र की बाबत भी क्रियशील होगा ; और

(घ) कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ की बाबत क्रियशील होगा।

4. पूर्त-विन्यास सम्पत्तियों का अन्तरण—(1) नियत दिन से ही, किसी पूर्त-विन्यास से संबंधित और विद्यमान निगम में निहित सभी सम्पत्तियाँ (जिनके अंतर्गत एक संबंधी वस्तावेज भी हैं), —

(क) जहाँ पूर्त-विन्यास के उद्देश्यों का विस्तार किसी एक राज्य के बाहर भी है, वहाँ वह कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास में निहित हो जाएगी ;

परन्तु विद्यमान निगम द्वारा अनुसूची 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निधियों में, उसके स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट तारीख से ठीक पूर्व धारित आस्तियाँ, जिनके अंतर्गत ऐसी किसी निधि में की किन्हीं प्रतिभूतियों, निक्षेपों या अन्य आस्तियों पर उक्त तारीख तक प्रोद्भूत किन्तु उस तारीख के पश्चात् बसूल किया गया कोई ब्याज या अन्य आय भी है, पंजाब निगम, हरियाणा निगम, हिमाचल प्रदेश निगम और कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास के बीच उस अनुपात में विभाजित की जाएगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में प्रत्येक के सामने दी गई सुसंगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ; और ऐसे विभाजन पर आर्बिट्रल अंग, उसके आग्रहों सहित या कोई अन्य शेयर, निक्षेप या अन्य प्रतिभूतियाँ, जिनमें ऐसे आग्रहों का पुनर्विनिधान किया गया है या इस प्रकार आर्बिट्रल अंग से, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुसंगत तारीख को या उससे होने वाली कोई अन्य आय, नियत दिन से ही, यथास्थिति, पंजाब निगम या हरियाणा निगम या हिमाचल प्रदेश निगम या कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास में निहित हो जाएगी ;

परन्तु यह और कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट विभिन्न निधियों में, उक्त अनुसूची में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को, धारित आस्तियाँ प्रथम परन्तुक के अधीन रहते

हुए, अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट पंजाब निगम या हरियाणा निगम या हिमाचल प्रदेश निगम या कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास को आर्बिट्रल की जाएगी ;

(ख) जहाँ संबंधित पूर्त-विन्यास के उद्देश्यों का अनन्य रूप से विस्तार, यथास्थिति, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य या उसके किसी भाग पर या अन्तर्गत राज्यक्षेत्र पर है, वहाँ वह संबंधित उत्तरवर्ती निगम में निहित हो जाएगी ;

(ग) जहाँ पूर्त-विन्यास के उद्देश्यों का अनन्य रूप से विस्तार सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर या उसके किसी भाग पर है, वहाँ वह कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास में निहित हो जाएगी ; और

(घ) किसी अन्य दशा में पंजाब निगम में निहित हो जाएगी।

(2) उप-पैरा (1) में किसी बात के होने हुए भी, पंजाब निगम किसी भी समय, किसी उत्तरवर्ती निगम को या कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास को या उसके द्वारा इस निमित्त निश्चित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, किन्हीं ऐसे अभिलेखों, लेखाओं और वस्तावेजों का, जो विद्यमान निगम के पास हैं, और जो पंजाब निगम में निहित पूर्त-विन्यासों से संबंधित नहीं हैं, निरीक्षण करने देगा और उनसे उद्धरण या उनकी प्रतियाँ लेने देगा।

5. विद्यमान स्कीमों को, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, संबंधित सरकारों द्वारा तय किया गया समझा जाएगा—अधिनियम की धारा 5 के अधीन तय की, उपात्तरित या प्रतिस्थापित की गई सभी स्कीमों, जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवर्तन में थीं, उस दिन से ही इस आदेश के अधीन वह सम्पत्ति, यथास्थिति, कोषपाल भारत का, पूर्त-विन्यास या हरियाणा निगम, हिमाचल प्रदेश निगम या पंजाब निगम में होंगी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या हरियाणा राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश राज्य या पंजाब राज्य द्वारा यथावश्यक परिवर्तनों सहित जती प्रकार तय की, उपात्तरित या प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी।

6. बकाया फीस की बसूली—नियत दिन से पूर्व विद्यमान निगम में निहित सम्पत्ति की बाबत इस अधिनियम के अधीन बसूल्य किन्हीं फीसों को, यदि ऐसी फीसें नियत दिन से पूर्व बसूल नहीं की गई हैं, बसूल करने का अधिकार इस आदेश के अधीन वह सम्पत्ति, यथास्थिति, कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास में या हरियाणा निगम, हिमाचल प्रदेश निगम या पंजाब निगम में निहित होने के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या हरियाणा राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य या पंजाब राज्य सरकार को होगा।

7. अवशिष्टीय उपबन्ध—विद्यमान निगम की किन्हीं आस्तियों या दायित्वों के फायदे या बोझ, जिनका उल्लेख पूर्वगामी उपबन्धों में नहीं किया गया है,—

(क) जहाँ उनका संबंध, इस आदेश के अधीन कोषपाल, भारत का पूर्त-विन्यास में या हरियाणा निगम या हिमाचल प्रदेश निगम में निहित किसी सम्पत्ति से है, वहाँ, यथास्थिति, उन कोषपाल या सम्बन्ध निगम को संक्रान्त हो जाएंगे ;

(ख) किसी अन्य दशा में, पंजाब निगम पर बना रहेगा :

परन्तु विद्यमान निगम के कार्यालय के स्टोर की सभी वस्तुएँ और बैंक-स्टाक लेखा पंजाब निगम को आर्बिट्रल हो जाएगी।

8. **अधिक कार्यवाहियाँ** — (1) जहाँ नियत दिन से ठीक पूर्व उम सम्पत्ति की बात जो, इस आदेश द्वारा, यथास्थिति, कोषपाल, भारत का पूर्व-विन्यास में या पंजाब निगम या किसी उत्तरवर्ती निगम में निहित हो गई है, किसी न्यायालय में या अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष किन्हीं विधिक कार्यवाहियों में विद्यमान निगम एक पक्षकार है या उसे पक्षकार समझा जाता है वहाँ उम दिन से ही कोषपाल, भारत का पूर्व-विन्यास में या, यथास्थिति पंजाब निगम या संबंधित उत्तरवर्ती निगम को बाबत यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, उन कार्यवाहियों में एक पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित हो गया है या एक पक्षकार के रूप में जोड़ दिया गया है और तदनुसार कार्यवाहियाँ चालू रखी जा सकेंगी।

(2) जहाँ नियत दिन से ठीक पूर्व, उप-पैरा (1) में निविष्ट सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के बारे में विद्यमान निगम एक पक्षकार है या उसे एक पक्षकार समझा

जाता है वहाँ उस दिन से ही यह समझा जाएगा कि विद्यमान निगम के स्थान पर पंजाब निगम को, यथास्थिति, उन कार्यवाहियों में एक पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है या एक पक्षकार के रूप में जोड़ दिया गया है और तदनुसार कार्यवाहियाँ चालू रखी जा सकेंगी।

9. **विद्यमान निगम के कर्मचारियों के बारे में उपबंध**—नियत दिन से ठीक पूर्व, विद्यमान निगम में पद धारण करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों उम दिन से ही, पंजाब निगम के अधीन सेवा को, उन्हीं शर्तों और निबंधनों के अधीन जो उम दिन से ठीक पूर्व उन्हें लागू थे और जब तक कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उन्हें मध्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देता, आबंटित किए गए समझे जाएंगे।

#### अनुसूची I

[पैरा 4(1)(क), प्रथम परन्तुक देखिए]

| क्रम सं० | निधि का नाम  | तारीख      | अनुपात  |
|----------|--|------------|---|
| 1        | 2  | 3          | 4   |
| 1.       | पंजाब युद्धोत्तर सेवा पुनर्गठन निधि  |            | पंजाब निगम 67.37  |
| (i)      | मद (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न सभी आस्तियाँ  | 1-4-1967   | हरियाणा निगम 33.5   |
| (ii)     | (क) कोषपाल भारत का पूर्व विन्यास से भूतपूर्व पेपसु राज्य के अंश के रूप में नकद प्राप्त 6,84,418.62 रुपए की राशि।   | 27-5-1968  | हिमाचल प्रदेश निगम 9.0<br>कोषपाल, भारत पूर्व विन्यास 0.13   |
|          | (ख) जिला सैनिक, नौसैनिक तथा वायु सैनिक बोर्ड, करनाल के पास अनुपयोजित 36,000.00 रुपए का अतिशेष                      | 27-6-1968  |   |
| (iii)    | कोषपाल भारत का पूर्व विन्यास से भूतपूर्व पेपसु राज्य के अंश के रूप में प्राप्त 5 लाख रुपए के मूल्य की प्रतिभूतियों | 30-11-1968 |   |
| 2.       | भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन तथा पुनर्वास के लिए विशेष निधि  | 31-7-1968  | पंजाब निगम 52.93<br>हरियाणा निगम 33.8<br>हिमाचल प्रदेश निगम 13.1<br>कोषपाल, भारत पूर्व विन्यास 0.17 |
| 3.       | राष्ट्रीय कर्मचारी सहायता निधि   | 1-4-1970   | पंजाब निगम 67<br>हरियाणा निगम 25<br>हिमाचल प्रदेश निगम 7<br>कोषपाल, भारत पूर्व विन्यास 1            |

## अनुसूची II

[देखिए पैरा 4(1) (क) दूसरा परन्तुक]

पंजाब यू.आर. सेवाएं पुनर्निर्माण सेवा निधि

| आस्तियों की विशिष्टियां   | कुल रकम    | पंजाब निगम की आर्बिटन                            |           |
|---|------------|--|-----------|
|   |            | विशिष्टियां                                      | रकम       |
| 1   | 2          | 3  | 4         |
|   | ₹०         |  | ₹०        |
| (i) उन आस्तियों को छाड़कर जो मव (ii) और (iii) में विनिश्चित हैं, सभी आस्तियों प्रतिभूतिवा, विशेष और नकद |            |  |           |
| 4-9-1972 को शोध 4-1/4 प्रतिशत पंजाब सरकार ऋण  | 40,20,100  | डी एच 000331 से 40 तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)  | 10,00,000 |
|   |            | डी एच 000343 से 356 तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का) | 14,00,000 |
|   |            | डी एच-13   | 44,800    |
|   |            |  | 24,44,800 |
| 10-11-1972 को शोध 4-1/4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बन्धपत्र  | 100,00,000 | डी एच 000991 से 96 तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)  | 6,00,000  |
|   |            | डी एच 75 में अंश                                 | 8,100     |
|   |            |  | 6,08,100  |
| 17-8-1968 को शोध पंजाब नेशनल बैंक, खंडीगढ़ में 5 प्रतिशत साधारण निक्षेप की रसीदें                       | 9,00,000   | सां.नि.सं० 1074/63ग(क)                           | 40,138    |
|   |            | 1074/63ग(ख)                                      | 7,113     |
|   |            | 1074/63 गस तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)          | 5,00,000  |
|   |            |  | 5,47,251  |

| हरियाणा निगम की आर्बिटन                         |           | हिमाचल प्रदेश निगम की आर्बिटन |          | कोयपान भारत का पूर्व विन्यास आर्बिटन |     |
|---|-----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|
| विशिष्टियां                                     | रकम       | विशिष्टियां                   | रकम      | विशिष्टियां                          | रकम |
| 5   | 6         | 7                             | 8        | 9                                    | 10  |
|   | ₹०        |                               | ₹०       |                                      | ₹०  |
| डी एच 000357 से 69 तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का) | 13,00,000 | डी एच 000341                  | 1,00,000 |                                      |     |
| डी एच 14  | 8,300     | 342                           | 1,00,000 |                                      |     |
|   | 13,08,300 | डी एच-11                      | 67,000   |                                      |     |
|   |           |                               | 2,67,000 |                                      |     |
| डी एच 000997 से 99 तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का) | 3,00,000  | डी एच-74                      | 65,500   |                                      |     |
| डी एच-75 में अंश                                | 25,400    |                               |          |                                      |     |
|   | 3,25,400  |                               | 66,500   |                                      |     |
| सां.नि.सं० 1074/63ग(क)                          | 92,887    | एफडी सं०                      | 59,862   |                                      |     |
| 1074/63 क                                       | 1,00,000  | 1074/63 (ख)                   |          |                                      |     |
| 1074/63 ज                                       | 1,00,00   |                               |          |                                      |     |
|   | 2,92,887  |                               | 59,862   |                                      |     |

| 1  | 2              | 3   | 4  |
|--|----------------|---|--|
| 17-8-1968 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5% सावधि निक्षेप की रसीदें   | 20,00,000      | 7/3 पी ए से एल तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)<br>7/38 एस (i)  | 12,00,000<br>16,114<br><hr/> 12,16,114   |
| 8-9-1967 को शोध सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सावधि निक्षेप की रसीदें   | 9,00,000       | 4-1/2%<br>11/82 से अंश<br>4-1/2% सं० 11/83<br>4-1/2% सं० 11/84<br>6% सं० 11/580<br>6% सं० 10/581<br>6% सं० 10/582 | 47,251<br>1,00,000<br>1,00,000<br>1,00,000<br>1,00,000<br>1,00,000<br><hr/> 5,47,251 |
| 31-8-1970 को शोध यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक में सावधि निक्षेप की रसीदें | 21,18,052      | 433/65 ए से एल तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)<br>432/65 एस (i)  | 12,00,000<br>87,897<br><hr/> 12,87,897   |
| नकद  | 2,16,556.93    |   | 1,13,887.93  |
| प्रतिभृतियां, निक्षेप और नकद   | 1,11,54,708.93 |   | 67,65,300.93   |

| 5   | 6  | 7                            | 8                                      | 9 | 10     |
|---|--|------------------------------|--|---|--------|
| 7/38 एम से आर तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)<br>7/38 एस (ii)                      | 6,00,000<br>50,862<br><hr/> 6,50,862                       | 7/38 एस<br>7/38 टी           | 1,00,000<br>33,024<br><hr/> 1,33,024   |   |        |
| 4-1/2%<br>11/82 से अंश<br>4-1/2% सं० 11/85<br>4-1/2% सं० 11/86<br>6% सं० 10/588 | 52,749<br>1,00,000<br>1,00,000<br>40,138<br><hr/> 2,92,887 | सं० 10/588 (ख) में से<br>अंश | 59,862<br><br><br><br><hr/> 59,862     |   |        |
| 433/65 एम से आर तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का)<br>433/65 एस (ii)                  | 6,00,000<br>89,280<br><hr/> 6,89,280<br><hr/> 70,470       | 433/65 टी                    | 1,40,875<br><br><br><br><hr/> 1,40,875 |   | 17,397 |
|   | 36,30,086  |                              | 7,41,925                               |   | 17,397 |

| 1   | 2              | 3   | 4            |
|---|----------------|---|--------------|
| स्थावर जंगम सम्पत्ति और ऋण सैनिक विश्राम गृहों का (जिसमें भूमि की लागत, निर्माण और फर्नीचर की लागत भी है) मूल्य | 19,82,825.97   | अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, हoshiयारपुर, मुधियाना, पटियाला, मंगलूर, मटिन्डा, कपूरथला, और खंडीगढ़ जिलों में विश्राम गृहों का मूल्य | 10,82,780.92 |
| सेनाटोरिया का मूल्य   | 1,72,485.44    | गुरवासपुर और पटियाला जिलों में सेनाटोरिया का मूल्य  | 71,622.44    |
| ऋण  | 10,10,773.00   | निम्नलिखित से शोध्य पब्लिक स्कूलों का भा  | 2,40,631.00  |
|   |                | आदर्श पोल्ड्रो कामिंग, आनंद   | 1,30,000     |
|   |                | पुर माहिब   | 2,700        |
|   |                | कुक्कुट पालन उद्योग के लिए भूतपूर्व सैनिकों को अलग अलग ऋण   | 4,625        |
|   |                | बाढ़ सहायता ऋण  | 66,751       |
|   |                | सहकारी समितियों को अलग अलग व्याज रहित ऋण  | 22,684       |
|   |                | कृषि ऋण   | 13,871       |
| कुल स्थावर जंगम सम्पत्ति और ऋण  | 30,66,084.41   |   | 13,95,034.36 |
| (1) का कुल  | 1,42,20,793.34 |   | 81,60,335.29 |

| 5   | 6            | 7   | 8            | 9 | 10    |
|---|--------------|---|--------------|---|-------|
| रोहतक, करनाल, गुड़गांव (रिवाड़ी) अम्बाला, नारनौल (बखीवादरी) हिसार (और भिवानी) के जिलों में सैनिक विश्राम गृहों का मूल्य | 6,90,425.84  | धरमशाला (कांगड़ा) जिले में सैनिक विश्राम गृह का मूल्य | 1,09,619.21  |   |       |
|   |              | — धरमशाला (कांगड़ा) जिले में सेनेटोरिया का मूल्य      | 1,00,863     |   |       |
| निम्नलिखित से शोध्य नेहरू कालेज   | 4,42,642     | निम्नलिखित से शोध्य शिवालयिक मिल्स, गांगरेट           | 3,27,500     |   |       |
| राजजर   | 4,07,083     |   |              |   |       |
| बंकिंग सेट के लिए सैनिक विश्राम गृह, नारनौल को ऋण   | 6,000        |   |              |   |       |
| बाढ़ सहायता   | 27,769       |   |              |   |       |
| मूल सहकारी समितियों, सहकारी समितियों को अलग अलग व्याज रहित ऋण   | 1,790        |   |              |   |       |
|   | 11,33,067.84 |   | 5,37,982.21  |   | 17397 |
|   | 47,63,153.84 |   | 12,79,907.21 |   | 17397 |

| 1   | 2              | 3  | 4            |
|---|----------------|--|--------------|
| (ii) (क) भारत सरकार से 27-6-1968 को नकद प्राप्त रकम                         | 68,448.62      |  | 4,14,240.70  |
| (ख) जिला सैनिक, नाविक और वायु सैनिक, बोर्ड, करनाम के पास अनुपयोजित प्रतिशेष | 36,000.00      |  |              |
| (ii) का योग   | 7,20,418.62    |  | 4,14,240.70  |
| (iii) भारत सरकार से 30-11-1968 को प्राप्त प्रतिभूतियां                      |                |  |              |
| 4 प्रतिशत--10 वर्षीय टी एस डी प्रमाणपत्र                                    | 50,000         | सं० डी०एच० 012897                                  | 28,750       |
| 4 प्रतिशत ऋण--1981  | 14,00,000      | (डी एच-30)   | 8,05,000     |
| 12 वर्षीय एन पी एस सी   | 50,000         | सं० जी०/0-526557 से 61 तक (प्रत्येक 5000 रु० का) 1 | 25,000       |
|   |                | सं० एफ०/1-073471 से 73 तक (प्रत्येक 1000 रु० का)   | 3,000        |
|   |                | एफ०/0-894671                                       | 500          |
|   |                | डी/2-984001  | 100          |
|   |                | 12   | 100          |
| (iii) का योग  | 15,00,000      |  | 8,62,500     |
| सकल योग   | 1,64,41,211.96 |  | 94,37,075.99 |

| 5                | 6            | 7                      | 8            | 9         | 10 |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|----|
|                  | 2,05,340.24  |                        | 64,837.68    |           |    |
|                  | 36,000.00    |                        |              |           |    |
|                  | 2,41,340.24  |                        | 64,837.68    |           |    |
| डी एच-012798     | 16,750       | डी एच-012896           | 4,500        |           |    |
| (डी एच-31)       | 4,69,000     | (डी एच-29)             | 1,26,000     |           |    |
| सं० जी०/0-193600 | 5,000        | सं० एफ०/1-             | 4,000        |           |    |
| 526555           | 5,000        | 073475 से              |              |           |    |
| 526556           | 5,000        | 78 तक                  |              |           |    |
| एफ/1-073474      | 1,000        | (प्रत्येक 1000 रु० का) |              |           |    |
| एफ/0-894672      | 500          |                        |              |           |    |
| डी/3-209932      | 100          | सं० एफ०/0-894673       | 500          |           |    |
| डी/2-984010      | 100          |                        |              |           |    |
| सी/1-746200      | 50           |                        |              |           |    |
|                  | 5,02,500     |                        | 1,35,000     | 17,397.00 |    |
|                  | 55,06,994.08 |                        | 14,79,744.99 | 17,397.00 |    |

## भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष निर्णय

## प्राप्तिस्थलों की विविष्टियाँ

1

|                                      |  |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| 5-1/4 प्रतिशत पंजाब ग्रहण, 1979      | पनिधूनि/मा०नि०र०सं० और शोध नगरेय डी एन-000077 से 99 तक (प्रत्येक एक लाख रुपए का) | 23,00,000            |
|                                      | 1979   |                      |
|                                      | सं० डी एम-000043-44 (प्रत्येक एक हजार रुपए का)                                   | 2,000                |
|                                      | सं० डी एन-000041-42 (प्रत्येक 100 रु० का)  | 200                  |
|                                      | 1979   |                      |
|                                      | अंकित मूल्य  | 23,02,200            |
|                                      | प्रत्येक मूल्य   | 22,33,134            |
| पंजाब राज्य सहकारी बैंक, चंडीगढ़ में | सं० 4070/6/68  | ता० 1-7-1969 को शोध  |
| सावधि निक्षेप की रसीदें              | सं० 4030/310/67-68   | ता० 7-6-1969 को शोध  |
|                                      | सं० 4017/297/67-68   | ता० 23-5-1969 को शोध |
|                                      | सं० 4018/298/67-68   | ता० 25-5-1969 को शोध |
|                                      | सं० 4019/299/67-68   | ता० 2-6-69 को शोध    |
|                                      | सं० 4069/5/68-69   | ता० 1-7-1969 को शोध  |
|                                      | सं० 3881/162/67-68   | ता० 1-1-1969 को शोध  |
| भारतीय स्टेट बैंक                    | सं० 055613   | ता० 23-8-1968 को शोध |
|                                      | सं० 055789   | ता० 23-5-1969 को शोध |
| सेंट्रल बैंक आफ इंडिया               | सं० 454  | ता० 1-7-1969 को शोध  |
|                                      | सं० 455  | ता० 1-7-1969 को शोध  |
|                                      | सं० 5/1968   | ता० 23-5-1969 को शोध |
|                                      | सं० 3/755  | ता० 1-7-1969 को शोध  |
| इंडियन ओवरसीज बैंक लुधियाना          | सं० 172/68   | ता० 5-6-1969 को शोध  |
|                                      | सं० 5/68   | ता० 3-1-1969 को शोध  |
|                                      | सं० 269/68   | ता० 27-8-1969 को शोध |

## निम्नलिखित को प्राथमिक रकम

| कुल रकम      | पंजाब निगम   | हरियाणा निगम | हिमाचल प्रदेश निगम | कोषापाल, भारत का पूर्व विन्यास |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 2            | 3            | 4            | 5                  | 6                              |
| रु०          |              | रु०          |                    | रु०                            |
| 22,33,134.00 | 22,33,134.00 |              |                    |                                |
| 46,677.85    | 46,677.85    |              |                    |                                |
| 69,543.40    | 69,543.40    |              |                    |                                |
| 39,35,300.96 | 39,35,300.96 |              |                    |                                |
| 23,15,911.03 | 23,15,911.03 |              |                    |                                |
| 3,48,157.23  | 3,48,157.23  |              |                    |                                |
| 41,024.48    | 41,024.48    |              |                    |                                |
| 1,96,595.16  | 1,96,595.16  |              |                    |                                |
| 50,00,000.00 | —            | 50,00,000.00 |                    |                                |
| 1,50,000.00  | —            | 1,50,000.00  |                    |                                |
| 492.84       | —            | 492.84       |                    |                                |
| 16,508.33    | —            | 16,508.33    |                    |                                |
| 3,58,972.50  | —            | 3,58,972.50  |                    |                                |
| 2,109.28     | —            | 2,109.28     |                    |                                |
| 51,627.23    | —            | 51,627.23    |                    |                                |
| 75,000.00    | —            | 75,000.00    |                    |                                |
| 7,785.00     | —            | 7,785.00     |                    |                                |



## अनुसूची

(1)

|                         |               |               |                         |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | सं० 5/68      | ता० 23-8-1968 | को शोध्य                |
| इंडियन ओवरसीज बैंक:     | सं० 341/67(क) | 95,796.12     | ता० 27-11-1968 को शोध्य |
| सूधियाता में साक्षि     | सं० 341/67(ख) | 29,149.76     | ता० 27-11-1968 को शोध्य |
| विधेय की रसीदे          | सं० 341/67(ग) | 25,034.12     | ता० 27-11-1968 को शोध्य |

योग : 1,50,000.00

नकद

सकल धास्तियाँ

पंजाब निगम द्वारा ग्रहण की गई 14,952.61 रु० की

सरकार का धारित षटाक्ष

शुद्ध धास्तियाँ

पंजाब निगम को प्राबलित प्रश्न में से,  
 चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित  
 प्रश्न में नकद संवत्

| (2)            | (3)          | (4)          | (5)          | (6)       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 22,00,000.00   | --           | --           | 22,00,000.00 | --        |
| --             | --           | 95,796.12    | --           | --        |
| --             | --           | --           | 29,149.76    | --        |
| 150,000.00     | 25,034.12    | --           | --           | --        |
| 2.00           | 2.00         | --           | --           | --        |
| 1,798,841.29   | 92,11,400.23 | 57,50,291.30 | 22,29,149.76 | --        |
| ऋण 14,952.61   | ऋण 14,952.61 | --           | --           | --        |
| 1,71,83,888.68 | 91,96,447.62 | 57,58,291.30 | 22,29,149.76 | --        |
| ऋण             | 29,212.61    | --           | --           | 29,212.61 |
| 1,71,83,888.68 | 91,67,235.01 | 57,58,291.30 | 22,29,149.76 | 29,212.61 |

राष्ट्रीय कर्मचारि सहायता निधि  
ग्रामिणों की बिनिश्टियां

(1)

कमशियत बैंकों में सावधि निक्षेप की रसीदें  
हलाहाबाद बैंक, सैक्टर 17, चण्डीगढ़

|  |  |
|--|--|
| सं० 06373/293 ता० 14-11-1970 को शोध्य        | 1,00,000                                     |
| सं० 06374/294 ता० 14-11-1970 को शोध्य        | 1,00,000                                     |
| सं० 06375/295 ता० 14-11-1970 को शोध्य        | 1,00,000                                     |
| सं० 06376/296 ता० 14-11-1970 को शोध्य        | 50,000                                       |
| सं० 06377/297 ता० 14-11-1970 को शोध्य        | 3,0,000                                      |
| सं० 06378/298 ता० 14-11-1970 को शोध्य        | 25,000                                       |
| सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, सैक्टर 22, चण्डीगढ़ | सं० 14/66 ता० 19-02-1971 को शोध्य 1,00,000   |
| यनाइटेड कमशियल बैंक, सैक्टर 22, चण्डीगढ़     | सं० 14/498 ता० 13-08-1971 को शोध्य 30,000    |
|  | सं० 609/70 ता० 23-03-1972 को शोध्य 1,00,000  |
|  | सं० 610/70 ता० 23-03-1972 को शोध्य 1,00,000  |
|  | सं० 611/70 ता० 23-03-1972 को शोध्य 1,00,000  |
|  | सं० 612/70 ता० 23-03-1972 को शोध्य 1,00,000  |
|  | सं० 613/70 ता० 23-03-1972 को शोध्य 72,320.32 |
| योग :  | 10,07,320.32                                 |
| अभ्य सावधि निक्षेप की रसीदें                 | 3,77,679.68                                  |
|  | 13,85,000.00                                 |
| नकद  | 99,406.94                                    |
| 1-4-1970 वर्तमान आर्बिटल कुल ग्रामिणों       | 14,84,406.94                                 |

सावधि निक्षेपों पर 1-4-1970 से 23-11-1970 तक की अवधि की आय।

ग्रामिणों की बिनिश्टियां

निम्नलिखित को आर्बिटल रकम

| कुल रकम      | पंजाब निगम   | हरियाणा निगम | हिमाचल प्रदेश निगम | कोषापाल भारत का पूर्व विन्यास |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| (2)          | (3)          | (4)          | (5)                | (6)                           |
| रु०          | रु०          | रु०          | रु०                | रु०                           |
| 14,84,406.94 | 9,94,552.65  | 3,71,101.74  | 1,03,908.48        | 14,844.07                     |
| 64,797.70    | 43,414.55    | 16,199.49    | 4,535.80           | 647.95                        |
| 15,49,204.64 | 10,37,967.20 | 3,87,301.14  | 1,08,444.28        | 15,492.02                     |

[एफ० सं० 17/40/68-एम० आर०]

भालचन्द्र देगमुखा, अपर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th June, 1980

## ORDER

**S.O. 386(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957), section 12 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 479 (E), dated the 7th July, 1972, issued under section 38 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), the Central Government, after consulting the Governments of the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Administrator of the Union Territory of Chandigarh, hereby approves, with certain modifications, the scheme forwarded by the Government of Punjab relating to the reconstitution and reorganisation of the Treasurer of Charitable Endowments for the State of Punjab, a corporation constituted under the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and functioning in the States of Punjab, Haryana, the territory forming part of the State of Himachal Pradesh by virtue of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with section 3 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and the Union Territory of Chandigarh; and for the purpose of giving effect to the scheme so approved, the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Treasurer of Charitable Endowments, Punjab (Reconstitution and Reorganisation) Order, 1980.

(2) It shall come into force on the first day of July, 1980.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890);
- (b) "appointed day" means the date of commencement of this Order;
- (c) "existing corporation" means the Treasurer of Charitable Endowments for Punjab constituted under the Act and functioning immediately before the appointed day in the States of Punjab and Haryana, the transferred territory, and the Union territory of Chandigarh;
- (d) "Haryana Corporation" means the corporation constituted in respect of the State of Haryana under paragraph 3;
- (e) "Himachal Pradesh Corporation" means the corporation functioning under the Act immediately before the appointed day, being the Treasurer of Charitable Endowments for Himachal Pradesh, in respect of the territories comprised in the State of Himachal Pradesh other than the transferred territory;
- (f) "Punjab Corporation" means the existing corporation as reorganised and reconstituted by paragraph 3;
- (g) "Schedule" means a Schedule appended to this Order;
- (h) "successor Corporation", in relation to the existing corporation, means the Haryana Corporation or the Himachal Pradesh Corporation, as the case may be;
- (i) "transferred territory" means the territory forming part of the State of Himachal Pradesh by virtue of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with section 3 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970);
- (j) all other words and expressions used herein and not defined in this Order but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Reorganisation of the existing corporation and constitution of a new corporation in respect of Haryana and extension of jurisdiction of Himachal Pradesh Corporation.—As from the appointed day, the existing corporation shall cease to function in the territories comprised in the State of Haryana, the transferred territory and the Union territory of Chandigarh, and as from that day,—

- (a) the existing corporation shall function in respect of the State of Punjab by the name "the Treasurer of Charitable Endowments for Punjab";
- (b) there shall be constituted by the Government of the State of Haryana, under the Act, a new corporation in respect of the State of Haryana by the name "the Treasurer of Charitable Endowments for Haryana";
- (c) the Himachal Pradesh Corporation shall function also in respect of the transferred territory; and
- (d) the treasurer of Charitable Endowments for India shall function in respect of the Union territory of Chandigarh.

4. Transfer of charitable endowment properties.—(1) As from the appointed day, all properties (including all documents of title) relating to any charitable endowment vesting in the existing corporation shall,—

- (a) where the objects of the charitable endowment extend beyond a single State, vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India ;

Provided that the assets held by the existing corporation in the funds specified in column (2) of Schedule I immediately before the date specified against each in column (3) thereof, including interest or any other income accrued on any securities, deposits or other assets in any such fund upto the said date but realised after that date, shall be divided among the Punjab Corporation, the Haryana Corporation, the Himachal Pradesh Corporation and the Treasurer of Charitable Endowments for India in the ratio specified against the relevant entry in column (4) of the said Schedule; and the shares allocated on such division together with the proceeds thereof or any other shares, deposits or other securities in which such proceeds may have been re-invested or any other income from the shares so allocated, on and from the relevant date specified in the said Schedule shall, as from the appointed day, vest in the Punjab Corporation or the Haryana Corporation or the Himachal Pradesh Corporation or, as the case may be, the Treasurer of Charitable Endowments for India :

Provided further that the assets held in the several funds specified in Schedule I on the date specified against each in the said Schedule shall, subject to the first proviso, be allocated to the Punjab Corporation or the Haryana Corporation or the Himachal Pradesh Corporation or the Treasurer of Charitable Endowments for India as specified in Schedule II;

- (b) where the objects of the charitable endowment concerned extend exclusively to the whole or any part of the State of Haryana or, as the case may be, the transferred territory, vest in the successor Corporation concerned;
- (c) where the objects of the charitable endowments extend exclusively to the whole or any part of the Union territory of Chandigarh, vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India ;
- (d) in any other case, vest in the Punjab Corporation.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Punjab Corporation shall allow at any time any successor Corporation or the Treasurer of Charitable Endowments for India, or a person authorised by it in writing in this behalf, to inspect any records, accounts and documents of the existing corporation remaining with it, other than those relating to charitable endowments vesting in the Punjab Corporation, and to take extracts or copies therefrom.

5. Existing schemes deemed to be settled *mutatis mutandis* by Government concerned.—All schemes settled, modified or substituted under section 5 of the Act, which were in operation immediately before the appointed day, shall, as from that day, be deemed to be settled, modified or substituted, *mutatis mutandis*, by the Central Government or the Government of the State of Haryana, or the State of Himachal Pradesh or, as the case may be, the State of Punjab according as the property vests under this Order in the Treasurer of Charitable Endowments for India, the Haryana Corporation, the Himachal Pradesh Corporation or the Punjab Corporation, as the case may be.

6. Recovery of outstanding fees.—The right to recovery any fees recoverable under the Act before the appointed day in respect of any property vested in the existing corporation shall, if such fees are not recovered before that day, belong to the Central Government or the Government of the State of Haryana, the State of Himachal Pradesh or, as the case may be, the Government of the State of Punjab according as the property vests under this Order in the Treasurer of Charitable Endowments for India, or the Haryana Corporation, the Himachal Pradesh Corporation or the Punjab Corporation, as the case may be.

7. Residuary provision.—The benefit or burden of any assets or liabilities of the existing corporation, not dealt with in the foregoing provisions, shall,—

- (a) where they relate to any property vested under this Order in the Treasurer of Charitable Endowments for India or the Haryana Corporation, pass to that Treasurer or the Corporation concerned, as the case may be;

(b) in any other case, continue to be with the Punjab Corporation :

Provided that all items of stores and dead stock account of the office of the existing corporation shall be allocated to the Punjab Corporation.

8. Legal proceedings.—(1) Where immediately before the appointed day, the existing corporation is, or is deemed to be, a party to any legal proceedings in any Court or before any tribunal or authority with respect to any property vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India or the Punjab Corporation or any successor Corporation by this Order, the Treasurer of Charitable Endowments for India or, as the case may be, the Punjab Corporation or the successor Corporation concerned shall, as from that day, be deemed to be substituted as a party to those proceedings or added as a party thereto, as the case may require, and the proceedings may continue accordingly.

(2) Where immediately before the appointed day, the existing corporation is, or is deemed to be, a party to any legal proceedings in respect of any property, other than those referred to in sub-paragraph (1), the Punjab Corporation shall, as from that day, be deemed to be substituted for the existing corporation as a party to those proceedings or added as a party thereto, as the case may require, and the proceedings may continue accordingly.

9. Provisions relating to the employees of the existing corporation.—All the Officers and staff of the existing corporation holding office immediately before the appointed day shall, as from that day, be deemed to have been allotted to serve under the Punjab Corporation on the same terms and conditions as were applicable to them immediately before that day, until they are duly varied by authority competent to appoint them.

#### SCHEDULE I

[See paragraph 4(1)(a), first proviso]

| Sl. No. | Name of the fund  | Date     | Ratio   |
|---------|---|----------|---|
| (1)     | (2)   | (3)      | (4)   |
| 1.      | Punjab Post War Services Reconstruction Fund.   |          |   |
|         | (i) All assets except those specified in items (ii) and (iii)   | 1-4-67   | Punjab Corporation 57.37%<br>Haryana Corporation 33.5%  |
|         | (ii) (a) Amount of Rs. 6,84,418.62 received in cash from the Treasurer of Charitable Endowments for India as share of erstwhile PEPSU State.    | 27-6-68  | Himachal Pradesh Corporation 9.0%<br>Treasurer, Charitable Endowments for India 0.13%   |
|         | (b) Unutilised balance of Rs. 36,000.00 lying with District Soldiers, Sailors and Airmen's Board, Karnal  | 27-6-68  |   |
|         | (iii) Securities of the value of Rs. 15 lakhs received from the Treasurer of Charitable Endowments for India as share of erstwhile PEPSU State. | 30-11-68 |   |
| 2.      | Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen.  | 31-7-68  | Punjab Corporation 52.93%<br>Haryana Corporation 33.8%<br>Himachal Pradesh Corporation 13.1%<br>Treasurer, Charitable Endowments for India. 0.17% |
| 3.      | National Workers' Relief Fund   | 1-4-70   | Punjab Corporation 67%<br>Haryana Corporation 25%<br>Himachal Pradesh Corporation 7%<br>Treasurer, Charitable Endowments for India 1%             |

## SCHEDULE II

(See paragraph 4 (1)(a) second proviso)

## 1. Punjab post war Services Reconstruction Fund

| Particulars of assets  | Total amount | Allocated to Punjab Corporation  |                                  |
|--|--------------|--|----------------------------------|
|  |              | Particulars  | Amount                           |
| (1)  | (2)          | (3)  | (4)                              |
|  | Rs.          |  | Rs.                              |
| (i) All assets, except those specified in items (ii) and (iii) |              |  |                                  |
| Securities, deposits and cash                                  |              |  |                                  |
| 4½% Punjab Govt. loan 1972 due on 4-9-1972                     | 40,20,100    | DH 000331 to 40 (for Rs one lac each) DH000343 to 356 (for one lac) each DH-13 | 10,00,000<br>14,00,000<br>44,800 |
|  |              |  | 24,44,800                        |
| 4½% National Defence Bonds 1972 due on 10-11-1972              | 10,00,000    | DH000991 to 96 (for 1 lac each) Share in DH-75                                 | 6,00,000<br>8,100                |
|  |              |  | 6,08,100                         |
| 5% FDR with Punjab National Bank, Chandigarh due on 17-8-1968  | 9,00,000     | FD No 1074/63C(a)<br>1074/63C(b)<br>1074/63D to H (for one lac each)           | 40,138<br>7,113<br>5,00,000      |
|  |              |  | 5,47,251                         |

| Allocated to Haryana Corporation  |           | Allocated to Himachal Pradesh Corporation |          | Allocated to the Treasurer of Charitable Endowment for India |        |
|-----------------------------------|-----------|---|----------|--|--------|
| Particulars                       | Amount    | Particulars                               | Amount   | Particulars  | Amount |
| (5)                               | (6)       | (7)                                       | (8)      | (9)  | (10)   |
|                                   | Rs.       |   | Rs.      |  | Rs.    |
| DH000357 to 69 (for one lac each) | 13,00,000 | DH000341                                  | 1,00,000 |  |        |
|                                   |           | 342                                       | 1,00,000 |  |        |
| DH-14                             | 8,300     | DH-11                                     | 67,000   |  |        |
|                                   | 13,08,300 |   | 2,67,000 |  |        |
| DH000997 to 99 (for one lac each) | 3,00,000  | DH-74                                     | 66,500   |  |        |
| Share in DH-75                    | 25,400    |   |          |  |        |
|                                   | 3,25,400  |   | 66,500   |  |        |
| FD No. 1074/63C(a)                | 92,887    | FD No. 1074/63(b)                         | 59,862   |  |        |
| 1074/63I                          | 1,00,000  |   |          |  |        |
| 1074/63J                          | 1,00,000  |   |          |  |        |
|                                   | 2,92,887  |   | 59,862   |  |        |

| (1)   | (2)                   | (3)   | (4)  |
|---|-----------------------|---|--|
| 5% FDR with Central Bank of India due on 17-8-1968  | 20,00,000             | 7/38 A to L (for one lac each)<br>7/38 S(i)   | 12,00,000<br>16,114  |
|   |                       |   | <u>12,16,114</u>   |
| FDR with Central Bank of India due on 8-9-1967      | 9,00,000              | Share from 11/82 : 4½%<br>4½% No. 11/83<br>4½% No. 11/84<br>6% No. 11/580<br>6% No. 10/581<br>6% No. 10/582 | 47,251<br>1,00,000<br>1,00,000<br>1,00,000<br>1,00,000<br>1,00,000 |
|   |                       |   | <u>5,47,251</u>  |
| 7% FDR with United Commercial Bank due on 31-8-1970 | 21,18,052             | 433/65A to L (for one lac each)<br>433/65 S(i)  | 12,00,000<br>87,897  |
|   |                       |   | <u>12,87,897</u>   |
| Cash  | 2,16,556.93           |   | <u>1,13,887.93</u>   |
| <b>TOTAL—Securities, Deposits and Cash</b>          | <b>1,11,54,708.93</b> |   | <b>67,65,300.93</b>  |

| (5)                              | (6)              | (7)                        | (8)             | (9) | (10)          |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----|---------------|
| 7/38 M to R (for one lac each)   | 6,00,000         | 7/38 S                     | 1,00,000        |     |               |
| 7/38 S(ii)                       | 50,862           | 7/38 T                     | 33,024          |     |               |
|                                  | <u>6,50,862</u>  |                            | <u>1,33,024</u> |     |               |
| Share from 11/82 @ 4½%           | 52,749           | Share out of No. 10/588(b) | 59,862          |     |               |
| 4½% No. 11/85                    | 1,00,000         |                            |                 |     |               |
| 4½% No. 11/86                    | 1,00,000         |                            |                 |     |               |
| 6% No. 10/588 (a) Share          | 40,138           |                            |                 |     |               |
|                                  | <u>2,92,887</u>  |                            | <u>59,862</u>   |     |               |
| 433/65 M to R (for one lac each) | 6,00,000         | 433/65T                    | 1,40,875        |     |               |
| 433/65 S(ii)                     | 89,280           |                            |                 |     |               |
|                                  | <u>6,89,280</u>  |                            | <u>1,40,875</u> |     |               |
|                                  | <u>70,470</u>    |                            | <u>14,802</u>   |     | <u>17,397</u> |
|                                  | <u>36,30,086</u> |                            | <u>7,41,925</u> |     | <u>17,397</u> |

| (1)   | (2)            | (3)   | (4)          |
|---|----------------|---|--------------|
|   | Rs.            |   | Rs.          |
| Immovable/Movable properties and loans  |                |   |              |
| Value of Sainik Rest Houses (including cost of land, cost of construction and furniture). | 18,82,825.97   | Value of Sainik Rest Houses in Districts of Amritsar, Jullundur, Ferozepur, Hoshiarpur, Gurdaspur, Ludhiana, Patiala, Sangrur, Bhatinda, Kapurthala and Chandigarh. | 10,82,780.92 |
| Value of Sanatoria  | 1,72,486.44    | Value of Sanatoria in Districts Gurdaspur and Patiala.  | 71,622.44    |
| Loans   | 10,10,773.00   | Due From :  | Rs.          |
|   |                | Public School, Nabha  | 1,30,000     |
|   |                | Adarsh Poultry Farming Anandpur Sahib.  | 2,700        |
|   |                | Loans to individual ex-service-men for Poultry Farming  | 4,625        |
|   |                | Flood Relief Loans  | 66,751       |
|   |                | Interest Free Loans to individual Cooperative Societies.  | 22,684       |
|   |                | Cultivation Loans   | 13,871       |
| Total of Immovable/Movable properties and Loans.  | 30,66,084.41   |   | 13,95,034.36 |
| Total of (i)  | 1,42,20,793.34 |   | 81,60,335.29 |

| (5)   | (6)          | (7)  | (8)          | (9) | (10)   |
|---|--------------|--|--------------|-----|--------|
|   | Rs.          |  | Rs.          |     | Rs.    |
| Value of Sainik Rest Houses in Districts Rohtak, Karnal, Gurgaon, (Rewari), Ambala, Narnaul, (Charkhi Dadri), Hissar (and Bhiwani). | 6,90,425.84  | Value of Sainik Rest House in District Dharamshala (Kangra). | 1,09,619.21  |     |        |
|   |              | Value of Sanatoria in District Dharamshala (Kangra).         | 1,00,863.00  |     |        |
| Due From :  | Rs.          | Due From :   |              |     |        |
| Nehru College, Jhajjar  | 4,07,083     | Shivalak Mills, Gagret                                       | 3,27,500.00  |     |        |
| Loans to Sainik Rest House, Narnaul for pumping set.  | 6,000        |  |              |     |        |
| Flood Relief Loans  | 27,769       |  |              |     |        |
| Interest Free Loans to individual Cooperative Societies.  | 1,790        |  |              |     |        |
|   | 11,33,067.84 |  | 5,37,982.21  |     |        |
|   | 47,63,153.84 |  | 12,79,907.21 |     | 17,397 |

| (1)  | (2)            | (3)  | (4)          |
|--|----------------|--|--------------|
|  | Rs.            |  | Rs.          |
| (ii) (a) Amount received in cash from Government of India on 27-6-1968.                      | 6,84,418.62    |  | 4,14,240.70  |
| (b) Unutilised balance lying with the District Soldiers, Sailors and Airmen's Board, Karnal. | 36,000.00      |  |              |
| Total of (ii)  | 7,20,418.62    |  | 4,14,240.70  |
| (iii) Securities received from Government of India on 30-11-1968                             |                |  |              |
| 4% 10 Years T.S.D. Certificates  | 50,000         | No. DH-012897                                | 28,750       |
| 4% Loan, 1981  | 14,00,000      | (Dh-30)                                      | 8,05,000     |
| 12-Years N.P.S.C.  | 50,000         | No. G/O-526557 to 61<br>(for Rs. 5,000 each) | 25,000       |
|  |                | F/1-073471 to 73<br>(for Rs. 1000 each)      | 3,000        |
|  |                | F/2-894671                                   | 500          |
|  |                | D/2-984011                                   | 100          |
|  |                | 12   | 100          |
|  |                | C/1-746199                                   | 50           |
| Total of (iii)   | 15,00,000      |  | 8,62,500     |
| GRAND TOTAL  | 1,64,41,211.96 |  | 94,37,075.99 |

| (5)            | (6)          | (7)                       | (8)          | (8) | (10)      |
|----------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----------|
|                | Rs.          |                           | Rs.          |     | Rs.       |
|                | 2,05,340.24  |                           | 64,837.68    |     | —         |
|                | 36,000.00    |                           | —            |     | —         |
|                | 2,41,340.24  |                           | 64,837.68    |     | —         |
| DH-012798      | 16,760       | DH-012896                 | 4,500        |     | —         |
| (DH-31)        | 4,69,000     | (DH-29)                   | 1,26,000     |     | —         |
| No. G/O-193600 | 5,000        | No. F/1-073475 to 78 (for | 4,000        |     | —         |
| 526555         | 5,000        | 1000 each)                |              |     |           |
| 526556         | 5,000        |                           |              |     |           |
| F/1-073474     | 1,000        | No. F/O-894673            | 500          |     | ..        |
| F/O-894672     | 500          |                           |              |     |           |
| D/3-209932     | 100          |                           |              |     |           |
| D/2-984010     | 100          |                           |              |     |           |
| C/1-746200     | 50           |                           |              |     |           |
|                | 5,02,500     |                           | 1,35,000     |     | —         |
|                | 55,06,994.08 |                           | 14,79,744.89 |     | 17,397.00 |



## 2. Special Fund for the reconstruction &amp; rehabilitation of Ex-servicemen

| Particulars of assets   |   |   |           |
|---|---|---|-----------|
| I   |   |   |           |
| 5% Punjab loan 1979   | Security/F. DR No and due date                | DN-000077 to 99 (for one lac each) 1979 | 23,00,000 |
|   | No. DN-000043-44 (for one thousand each) 1979 |   | 2 000     |
|   | No DN-000041-42 (for 100 each) 1979           |   | 200       |
|   | Face Value                                    |   | 23,02,200 |
|   | Purchase Value                                |   | 22,33,134 |
| Fixed Deposit Receipts with the Punjab State Co-operative Bank, Chandigarh  | No. 4070/6/68-69                              | due on 1-7-1969                         |           |
|   | No. 4030/310/67-68                            | 7-6-1969                                |           |
|   | No. 4017/297/67-68                            | 23-5-1969                               |           |
|   | No. 4018/298/67-68                            | 25-5-1969                               |           |
|   | No. 4019/299/67-68                            | 2-6-1969                                |           |
|   | No. 4069/5/68-69                              | 1-7-1969                                |           |
|   | No. 3881/162/67-68                            | 1-1-1969                                |           |
| State Bank of India   | No. 055613                                    | 23-8-1968                               |           |
|   | No. 055789                                    | 23-5-1969                               |           |
| Central Bank of India   | No. 454                                       | 1-7-1969                                |           |
|   | No. 455                                       | 1-7-1969                                |           |
|   | No. 5/1968                                    | 23-5-1969                               |           |
|   | No. 3/755                                     | 1-7-1969                                |           |
| Indian Overseas Bank, Ludhiana  | No. 172/68                                    | 5-6-1969                                |           |
|   | No. 5/68                                      | 3-1-1969                                |           |
|   | No. 269/68                                    | 27-8-1969                               |           |
|   | No. 5/68                                      | 23-8-1968                               |           |
| Central Bank of India   | No. 341/67(a)                                 | 95,796.12 due on 27-11-1968             |           |
| F.D. Rs. with Indian Overseas Bank, Ludhiana  | No. 341/67(b)                                 | 29,149.76 due on 27-11-1968             |           |
|   | No. 341/67(c)                                 | 25,054.12 due on 27-11-1968             |           |
|   | Total   | 1,50,000.00                             |           |
| Cash  |   |   |           |
| Gross Assets  |   |   |           |
| Less Government fee liability of Rs. 14,952.61 assumed by the Punjab Corporation  |   |   |           |
| Net Assets  |   |   |           |
| Paid in cash out of the share allocated to Punjab Corporation to the share relatable to the Union territory of Chandigarh |   |   |           |

| Total Amount    | Amount allocated to |                     |                              |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|
|                 | Punjab Corporation  | Haryana Corporation | Himachal Pradesh Corporation | Treasurer of Chairtable Endowments for India |
| 2               | 3                   | 4                   | 5                            | 6  |
| Rs.             | Rs.                 | Rs.                 | Rs.                          | Rs.  |
| 22,33,134.00    | 22,33,134.00        |                     |                              |  |
| 46,677.85       | 46,677.85           |                     |                              |  |
| 69,543.40       | 69,543.40           |                     |                              |  |
| 39,35,300.96    | 39,35,300.96        |                     |                              |  |
| 23,15,911.03    | 23,15,911.03        |                     |                              |  |
| 3,48,157.23     | 3,48,157.23         |                     |                              |  |
| 41,024.48       | 41,024.48           |                     |                              |  |
| 1,96,595.16     | 1,96,595.16         |                     |                              |  |
| 50,00,000.00    |                     | 50,00,000.00        |                              |  |
| 1,50,000.00     |                     | 1,50,000.00         |                              |  |
| 492.84          |                     | 492.84              |                              |  |
| 16,508.33       |                     | 16,508.33           |                              |  |
| 3,58,972.50     |                     | 3,58,972.50         |                              |  |
| 2,109.28        |                     | 2,109.28            |                              |  |
| 51,627.23       |                     | 51,627.23           |                              |  |
| 75,000.00       |                     | 75,000.00           |                              |  |
| 7,785.00        |                     | 7,785.00            |                              |  |
| 22,00,000.00    |                     |                     | 22,00,000.00                 |  |
|                 |                     | 95,796.12           |                              |  |
|                 |                     |                     | 29,149.76                    |  |
|                 | 25,054.12           |                     |                              |  |
| 1,50,000.00     |                     |                     |                              |  |
| 2.00            | 2.00                |                     |                              |  |
| 1,71,98,841.29  | 92,11,400.23        | 57,58,291.30        | 22,29,149.76                 |  |
| minus 14,952.61 | minus 14,952.61     |                     |                              |  |
| 1,71,83,888.68  | 91,96,447.62        | 57,58,291.30        | 22,29,149.76                 |  |
|                 | minus 29,212.61     |                     |                              | 29,212.61                                    |
| 1,71,83,888.68  | 91,67,235.01        | 57,58,291.30        | 22,29,149.76                 | 29,212.61                                    |

## 3. National Workers' Relief Fund

| Particulars of assets   |        |            |              |  |
|---|--------|------------|--------------|--|
| Fixed Deposit Receipts with Commercial Bank:                        |        |            |              |  |
| Allahabad Bank Sector 17 : Chandigarh                               |        |            |              |  |
| No. 06373/293   | due on | 14-11-1970 | 1,00,000     |  |
| No. 06374/294   | "      | 14-11-1970 | 1,00,000     |  |
| No. 06375/295   | "      | 14-11-1970 | 1,00,000     |  |
| No. 06376/296   | "      | 14-11-1970 | 50,000       |  |
| No. 06377/297   | "      | 14-11-1970 | 30,000       |  |
| No. 06378/298   | "      | 14-11-1970 | 25,000       |  |
| Central Bank of India, Sector-22, Chandigarh                        |        |            |              |  |
| No. 14/66   | "      | 19-02-1971 | 1,00,000     |  |
| No. 14/498  | "      | 13-03-1971 | 30,000       |  |
| United Commercial Bank, Sector 22, Chandigarh                       |        |            |              |  |
| No. 609/70  | "      | 23-03-1972 | 1,00,000     |  |
| No. 610/70  | "      | 23-03-1972 | 1,00,000     |  |
| No. 611/70  | "      | 23-03-1972 | 1,00,000     |  |
| No. 612/70  | "      | 23-03-1972 | 1,00,000     |  |
| No. 613/70  | "      | 23-03-1972 | 72,320.32    |  |
| Total :   |        |            | 10,07,320.32 |  |
| Other Fixed Deposits Receipts                                       |        |            | 3,77,679.68  |  |
| Cash—   |        |            | 13,85,000.00 |  |
|   |        |            | 99,406.94    |  |
| Total assets actually allocated on 1-4-1970                         |        |            | 14,84,406.94 |  |
| Income on fixed deposits for the period from 1-4-1970 to 23-11-1970 |        |            |              |  |

| Total Amount | Amount allotted to |                     |                              |  |
|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--|
|              | Punjab Corporation | Haryana Corporation | Himachal Pradesh Corporation | Treasurer of Cheritable Endowments for India |
| 2            | 3                  | 4                   | 5                            | 6  |
| Rs.          | Rs.                | Rs.                 | Rs.                          | Rs.  |
| 14,84,406.94 | 9,94,552.65        | 3,71,101.74         | 1,03,908.48                  | 14,844.07                                    |
| 64,797.70    | 43,414.55          | 16,199.40           | 4,535.80                     | 647.95                                       |
| 15,49,204.64 | 10,37,967.20       | 3,87,301.14         | 1,08,444.28                  | 15,492.02                                    |

[F. No. 17/40/68-SR]  
B.G. DESHMUKH, Additional Secy.